



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092023-248609
CG-DL-E-06092023-248609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3741]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 4, 2023/भाद्र 13, 1945

No. 3741]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 4, 2023/BHADRA 13, 1945

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2023

का.आ. 3903(अ).—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के (1989 का 24), 2008 के रेल (संशोधित) अधिनियम (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में कार्य निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, तथा आपरेशन के लिए विशेष रेल परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखौदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि० मी० 50.350 से कि०मी० 63.350 तक लोक परियोजन के लिए यह भूमि आपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, उपमण्डल अधिकारी (सिविल) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) पटौदी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अननुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची				
हरियाणा राज्य के जिला गुरुग्राम में विशेष परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखौदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि० मी० कि० मी० 50.350 से कि०मी० 63.350 तक के लिए अर्जन की जानी वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।				
जिले का नाम : गुरुग्राम				
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : फारुखनगर				
ग्राम का नाम : पातली हाजिपुर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	58//5 min	बंजर कदीम	निजी	0.0354
2	58//6 min	बंजर कदीम	निजी	0.0304
3	58//15 min	चाही	निजी	0.0253
4	59//4 min	चाही	निजी	0.0632
5	59//5 min	चाही	निजी	0.0152
6	59//6 min	चाही	निजी	0.0911
7	59//15 min	चाही	निजी	0.0809
8	59//16 min	चाही	निजी	0.0455
9	59//25 min	बंजर कदीम	निजी	0.0253
10	60//24 min	बंजर कदीम	निजी	0.1112
11	93//20 min	बंजर कदीम	निजी	0.0025
12	93//21 min	बंजर कदीम	निजी	0.0455
13	93//22 min	बंजर कदीम	निजी	0.0430
14	93//23 min	बंजर कदीम	निजी	0.0506
15	94//2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0405
16	94//3 min	बंजर कदीम	निजी	0.0379
17	94//4 min	बंजर कदीम	निजी	0.0076
18	94//6 min	बंजर कदीम	निजी	0.0152
19	94//7 min	बंजर कदीम	निजी	0.0455
20	94//8 min	बंजर कदीम	निजी	0.0278
21	94//11 min	चाही	निजी	0.0051
22	94//14 min	चाही	निजी	0.0177
23	94//15 min	चाही	निजी	0.0455
24	94//16 min	चाही	निजी	0.0101
25	94//20 min	चाही	निजी	0.0329
26	94//21 min	चाही	निजी	0.0405
27	95//1/1 min	चाही	निजी	0.0126
28	95//1/2 min	चाही	निजी	0.0126

29	95//10 min	चाही	निजी	0.0304
30	95//11 min	चाही	निजी	0.0304
31	95//19 min	चाही	निजी	0.0278
32	95//20 min	चाही	निजी	0.0126
33	95//22 min	चाही	निजी	0.0304
34	96//3 min	चाही	निजी	0.0506
35	96//4 min	चाही	निजी	0.0304
36	96//6 min	चाही	निजी	0.0101
37	96//7 min	चाही	निजी	0.0607
38	96//8 min	चाही	निजी	0.0025
39	96//14 min	चाही	निजी	0.0304
40	96//15 min	चाही	निजी	0.0379
41	96//16 min	चाही	निजी	0.0556
42	96//25 min	चाही	निजी	0.0202
43	97//11 min	चाही	निजी	0.0253
44	97//19 min	चाही	निजी	0.0304
45	97//20 min	चाही	निजी	0.0632
46	97//21 min	चाही	निजी	0.0025
47	97//22 min	चाही	निजी	0.0556
48	97//23 min	चाही	निजी	0.0405
49	99//21 min	चाही	निजी	0.0253
50	112//1/1 min	चाही	निजी	0.0025
51	112//1/2 min	चाही	निजी	0.0304
52	112//10 min	चाही	निजी	0.0253
53	112//11 min	चाही	निजी	0.0202
54	112//20 min	चाही	निजी	0.0202
55	112//21 min	चाही	निजी	0.0152
56	114//5 min	चाही	निजी	0.0455
57	114//6 min	चाही	निजी	0.0379
58	114//7 min	चाही	निजी	0.0202
59	114//14 min	चाही	निजी	0.0481
60	114//15 min	चाही	निजी	0.0051
61	114//17 min	चाही	निजी	0.0101
62	114//18/1 min	चाही	निजी	0.0177
63	114//18/2 min	चाही	निजी	0.0228
64	114//22 min	चाही	निजी	0.0025
65	115//5/1 min	चाही	निजी	0.0152

66	115//5/2 min	चाही	निजी	0.0025
67	115//6 min	चाही	निजी	0.0202
68	115//15 min	चाही	निजी	0.0152
69	115//16 min	चाही	निजी	0.0152
70	115//25 min	चाही	निजी	0.0253
71	116//2 min	चाही	निजी	0.0304
72	116//9 min	चाही	निजी	0.0304
73	116//12/1/2 min	चाही	निजी	0.0152
74	116//12/2 min	चाही	निजी	0.0152
75	116//18min	चाही	निजी	0.0076
76	116//19/1/1 min	चाही	निजी	0.0228
77	116//23/1 min	चाही	निजी	0.0228
78	116//23/2 min	चाही	निजी	0.0025
79	117//3 min	चाही	निजी	0.0304
80	117//8 min	चाही	निजी	0.0304
81	117//13 min	चाही	निजी	0.0304
82	117//18 min	चाही	निजी	0.0304
83	117//23/1 min	चाही	निजी	0.0304
84	118//3 min	चाही	निजी	0.0304
85	118//8 min	चाही	निजी	0.0304
86	118//14/2 min	चाही	निजी	0.0531
87	118//15/2 min	चाही	निजी	0.1163
88	118//17/1 min	चाही	निजी	0.0582
89	121//7/1 min	चाही	निजी	0.0126
90	121//8/1 min	चाही	निजी	0.0329
91	121//9/1 min	चाही	निजी	0.0329
92	121//10/1 min	चाही	निजी	0.0278
93	121//11/2 min	चाही	निजी	0.0379
94	121//12/2 min	चाही	निजी	0.0329
95	121//13/2 min	चाही	निजी	0.0481
96	121//14/1/1 min	चाही	निजी	0.0278
97	121//14/1/3 min	चाही	निजी	0.0202
98	121//14/2/1 min	चाही	निजी	0.0076
99	121//15/1/2 min	चाही	निजी	0.0228
100	121//15/2/2 min	चाही	निजी	0.0025
101	121//16/1 min	चाही	निजी	0.0228
102	121//16/3 min	चाही	निजी	0.0253

103	121//17/2 min	चाही	निजी	0.0076
104	121//25/1 min	चाही	निजी	0.0202
105	122//21/1 min	चाही	निजी	0.0379
106	122//21/3 min	चाही	निजी	0.0152
107	122//22 min	चाही	निजी	0.0025
108	123//1/1 min	चाही	निजी	0.0304
109	123//2/2 min	चाही	निजी	0.0354
110	123//9/1 min	चाही	निजी	0.0304
111	123//9/3 min	चाही	निजी	0.0126
112	123//10/2 min	चाही	निजी	0.0177
113	123//12/1 min	चाही	निजी	0.0304
114	123//12/3 min	चाही	निजी	0.0304
115	123//19/1 min	चाही	निजी	0.0304
116	123//19/3 min	चाही	निजी	0.0404
117	123//21/2/1 min	चाही	निजी	0.0253
118	123//22/1/1 min	चाही	निजी	0.0076
119	123//22/2/2 min	चाही	निजी	0.0304
120	126//1/1 min	चाही	निजी	0.0759
121	126//2/2 min	चाही	निजी	0.0455
122	126//9/1 min	चाही	निजी	0.0177
123	126//10/1 min	चाही	निजी	0.0228
124	126//10/3 min	चाही	निजी	0.0354
125	126//11/2 min	चाही	निजी	0.0278
126	128//1/1 min	चाही	निजी	0.0202
127	128//2/1 min	चाही	निजी	0.0404
128	128//2/3 min	चाही	निजी	0.0228
129	128//3/2 min	चाही	निजी	0.0253
130	128//9/1 min	चाही	निजी	0.0177
131	128//10/1 min	चाही	निजी	0.0278
132	128//10/3 min	चाही	निजी	0.0228
133	128//11/2 min	चाही	निजी	0.0126
134	129//14/1 min	चाही	निजी	0.0101
135	129//15/1 min	चाही	निजी	0.0631
136	129//15/3 min	चाही	निजी	0.0076
137	129//16/2 min	चाही	निजी	0.0329
138	129//17/1/1 min	चाही	निजी	0.0202
139	129//17/1/3 min	चाही	निजी	0.0404

140	129//17/2/1 min	चाही	निजी	0.0051
141	129//18/2 min	चाही	निजी	0.0101
142	129//22/1 min	चाही	निजी	0.0152
143	129//23/1 min	चाही	निजी	0.0329
144	129//23/3 min	चाही	निजी	0.0152
145	129//24/2 min	चाही	निजी	0.0379
146	131//6/1/1 min	चाही	निजी	0.0025
147	131//6/2/1 min	चाही	निजी	0.0531
148	131//14/1 min	चाही	निजी	0.0253
149	131//15/1/1/1 min	चाही	निजी	0.0531
150	131//15/1/1/3 min	चाही	निजी	0.0278
151	131//15/1/2/2 min	चाही	निजी	0.0025
152	131//15/2/2 min	चाही	निजी	0.0025
153	131//16/2/1 min	चाही	निजी	0.0101
154	131//17/1 min	चाही	निजी	0.0152
155	131//17/3 min	चाही	निजी	0.0683
156	132//23/1/1/2 min	चाही	सरकारी	0.0658
157	132//23/2 min	चाही	सरकारी	0.0329
158	156 min	चाही	निजी	0.0101
159	159/1 min	गैर मुमकिन सडक	सरकारी	0.0278
160	178 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0076
161	183 min	गैर मुमकिन सडक	निजी	0.0025
162	186 min	गैर मुमकिन सडक	निजी	0.0051
163	187 min	गैर मुमकिन सडक	निजी	0.0152
जोड़				4.5853
जिले का नाम : गुरुग्राम				
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : फारुखनगर				
ग्राम का नाम : खेटावास				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	24//3/2 min	चाही	निजी	0.0481
2	24//8 min	चाही/ गैर मुमकिन	निजी	0.0481
3	24//13 min	चाही	निजी	0.0253
4	73/3 min	गैर मुमकिन	सरकारी	0.0202
जोड़				0.1416

जिले का नाम : गुरुग्राम				
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : फारुखनगर				
ग्राम का नाम : सैदपुर मौहम्मदपुर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	34//25/2 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0076
2	38//4 min	चाही	निजी	0.0177
3	41//4 min	चाही	निजी	0.0455
4	41//5 min	चाही	निजी	0.0177
5	41//7/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
6	41//7/2 min	चाही	निजी	0.0582
7	41//8/2 min	चाही	निजी	0.0051
8	41//13/1 min	चाही	निजी	0.0126
9	41//13/2 min	चाही	निजी	0.0202
10	41//14 min	चाही	निजी	0.0304
11	41//17/1min	चाही	निजी	0.0304
12	41//18/ min	चाही	निजी	0.0304
13	41//23 min	चाही	निजी	0.0708
14	41//24 min	चाही	निजी	0.0354
15	42//5 min	चाही	निजी	0.0152
16	42//6 min	चाही	निजी	0.0304
17	42//15 min	चाही	निजी	0.0304
18	42//16/1 min	चाही	निजी	0.0455
19	42//17 min	चाही	निजी	0.0126
20	42//24/1 min	चाही	निजी	0.0152
21	42//24/2 min	चाही	निजी	0.0152
22	42//25/2/1 min	चाही	निजी	0.0304
23	43//1 min	चाही	निजी	0.0405
24	43//10/1 min	चाही	निजी	0.0278
25	43//11 min	चाही	निजी	0.0126
26	44//2/2 min	चाही	निजी	0.0304
27	44//3/1 min	चाही	निजी	0.0101
28	44//8/2 min	चाही	निजी	0.0076
29	44//9/1 min	चाही	निजी	0.0304
30	44//9/2 min	चाही	निजी	0.0304
31	44//11/2 min	चाही	निजी	0.0202

32	44//12 min	चाही	निजी	0.0531
33	44//19 min	चाही	निजी	0.0304
34	44//20/1 min	चाही	निजी	0.0051
35	44//20/2 min	चाही	निजी	0.0278
36	44//21/1 min	चाही	निजी	0.0278
37	44//21/2 min	चाही	निजी	0.0152
38	44//22 min	चाही	निजी	0.0101
39	45//2 min	चाही	निजी	0.0152
40	45//12 min	चाही	निजी	0.0253
41	45//19 min	चाही	निजी	0.0152
42	45//22/1 min	चाही	निजी	0.0051
43	46//11/2 min	चाही	निजी	0.0076
44	47//18/1 min	चाही	निजी	0.0025
45	47//18/2 min	चाही	निजी	0.0126
46	47//22/1 min	चाही	निजी	0.0152
47	47//22/3 min	चाही	निजी	0.0025
48	47//23/2/1 min	चाही	निजी	0.0076
49	47//23/2/2 min	चाही	निजी	0.0126
50	15/2/3 min	चाही	निजी	0.0025
जोड़				1.0828
जिले का नाम : गुरुग्राम				
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : फारुखनगर				
ग्राम का नाम : सुल्तानपुर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7//11 min	चाही	निजी	0.0025
2	7//12/1 min	चाही	निजी	0.0025
3	7//19/1 min	चाही	निजी	0.0051
4	7//19/2 min	बंजर कदीम	निजी	0.0101
5	7//22/2 min	चाही	निजी	0.0051
6	7//22/3/1 min	चाही	निजी	0.0177
7	15//2/2 min	चाही	निजी	0.0051
8	15//3/1/2 min	चाही	निजी	0.0126
9	15//3/2 min	चाही	निजी	0.0126
10	15//8 min	चाही	निजी	0.1872
11	15//13/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0202

12	15//14/1 min	चाही	निजी	0.0025
13	15//17/2 min	चाही	निजी	0.0304
14	15//24/2/1 min	चाही	निजी	0.0126
15	15//24/2/2 min	चाही	निजी	0.0051
16	32//11 min	चाही	निजी	0.0076
17	32//20 min	चाही	निजी	0.0455
18	32//21/1 min	चाही	निजी	0.0506
19	32//21/2 min	चाही	निजी	0.0253
20	33//4/2/1 min	चाही	निजी	0.0051
21	33//5 min	चाही	निजी	0.0177
22	33//6 min	बंजर कदीम	निजी	0.0304
23	33//15/2 min	चाही	निजी	0.0329
24	43//1/2 min	चाही	निजी	0.0430
25	43//2 min	चाही	निजी	0.0228
26	43//9 min	चाही	निजी	0.0708
27	43//12 min	चाही	निजी	0.0708
28	43//19/1 min	चाही	निजी	0.0708
29	43//22/2 min	चाही	निजी	0.0126
30	43//23 min	चाही	निजी	0.0253
31	65//3 min	चाही	निजी	0.0379
32	65//8 min	चाही	निजी	0.0253
33	65//13 min	चाही	निजी	0.0304
34	65//18/1 min	चाही	निजी	0.0354
35	65//23/2 min	चाही	निजी	0.0354
36	65//24 min	चाही	निजी	0.0101
37	76//4/1 min	चाही	निजी	0.0228
38	76//4/2 min	चाही	निजी	0.0202
39	76//7 min	चाही	निजी	0.0506
40	76//14 min	चाही	निजी	0.0506
41	76//17/2 min	चाही	निजी	0.0455
42	76//24 min	चाही	निजी	0.0506
43	99//4 min	चाही	निजी	0.0506
44	99//7 min	चाही	निजी	0.0379
45	99//14 min	चाही	निजी	0.0354
46	99//17/1	चाही	निजी	0.0379
47	99//24/2	बंजर कदीम	निजी	0.0278
48	110//4/2/2 min	चाही	निजी	0.0405

49	110//7/2/1 min	चाही	निजी	0.0405
50	110//15/ min	चाही	निजी	0.0152
51	110//16 min	चाही	निजी	0.0405
52	110//25 min	चाही	निजी	0.0607
53	130//11/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0202
54	130//11/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0152
55	130//20/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
56	130//22/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0076
57	130//23/1 min	चाही	निजी	0.0152
58	130//23/2 min	चाही	निजी	0.0025
59	130//24/2 min	चाही	निजी	0.0051
60	131//5 min	चाही	निजी	0.0556
61	131//6 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0556
62	131//15/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0051
63	131//16 min	चाही	निजी	0.0101
64	143//6 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0582
65	143//15/2/2 min	चाही	निजी	0.0708
66	143//16/1 min	चाही	निजी	0.0379
67	146//18 min	चाही	निजी	0.0253
68	146//23 min	चाही	निजी	0.0304
69	160//3 min	चाही	निजी	0.0076
70	160//4 min	चाही	निजी	0.0278
71	160//7 min	चाही	निजी	0.0076
72	160//14 min	चाही	निजी	0.0354
73	160//17 min	चाही	निजी	0.0354
74	160//18 min	चाही	निजी	0.0152
75	160//23/1 min	चाही	निजी	0.0152
76	160//23/2 min	चाही	निजी	0.0177
77	160//24 min	चाही	निजी	0.0177
78	160//26 min	चाही	निजी	0.0051
79	160//29 min	चाही	निजी	0.0076
80	162//20/1 min	चाही	निजी	0.0152
81	162//21/2 min	चाही	निजी	0.0278
82	177//1/2 min	चाही	निजी	0.0025
83	177//2 min	चाही	निजी	0.0177
84	177//9 min	चाही	निजी	0.0278
85	177//12/2 min	चाही	निजी	0.0278

86	177//19/1 min	चाही	निजी	0.0126
87	177//19/2/1 min	चाही	निजी	0.0126
88	177//22/2/2 min	चाही	निजी	0.0329
89	177//23 min	चाही	निजी	0.0051
90	179//3 min	चाही	निजी	0.0455
91	179//4 min	चाही	निजी	0.0177
92	179//7/2 min	चाही	निजी	0.0025
93	179//8 min	चाही	निजी	0.0228
94	179//13/1 min	चाही	निजी	0.0202
95	179//13/2 min	चाही	निजी	0.0177
96	179//18 min	चाही	निजी	0.0228
97	179//19 min	चाही	निजी	0.0253
98	179//22 min	चाही	निजी	0.0304
99	179//23 min	चाही	निजी	0.0304
100	189//2 min	चाही	निजी	0.0304
101	189//3 min	चाही	निजी	0.0253
102	189//9/1 min	चाही	निजी	0.0379
103	189//9/2 min	चाही	निजी	0.0278
104	189//12 min	चाही	निजी	0.0835
105	189//19/1 min	चाही	निजी	0.0126
106	189//19/3 min	चाही	निजी	0.0304
107	189//20 min	चाही	निजी	0.0329
108	189//21 min	चाही	निजी	0.0304
109	189//22/1 min	चाही	निजी	0.0304
110	191//3/1 min	चाही	निजी	0.0076
111	191//3/2 min	चाही	निजी	0.0202
112	191//8/2 min	चाही	निजी	0.0304
113	191//13/1 min	चाही	निजी	0.0076
114	191//13/2 min	चाही	निजी	0.0228
115	191//18/1 min	चाही	निजी	0.0354
116	191//231/1/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0101
117	191//23/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0076
118	191//23/2/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0126
119	191//24/3 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
120	205//4/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0025
121	205//4/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0278
122	205//7 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0228
123	206//15 min	चाही	निजी	0.0025
124	207//1/1 min	चाही	निजी	0.0025
125	207//1/2 min	चाही	निजी	0.0405
126	207//2 min	चाही	निजी	0.0228
127	207//10 min	चाही	निजी	0.0632

128	207//11 min	चाही	निजी	0.0304
129	217/1 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051
130	218 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0076
131	222/1 min	गैर मुमकिन लाइन परमिट	सरकारी	0.0177
132	230 min	गैर मुमकिन लाइन परमिट	सरकारी	0.0152
133	232/1/1 min	गैर मुमकिन लाइन परमिट	सरकारी	0.0051
134	357/2 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051
135	366/2 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025
136	423 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025
137	431 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051
138	432 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025
139	448/1 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051
140	451 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051
141	492 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025
142	511 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0101
143	512/1 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025
144	513 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025
145	519 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0025
146	521 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0051
147	523 min	गैर मुमकिन रास्ता	निजी	0.0202
जोड़				3.5284
जिले का नाम : गुरुग्राम				
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : फारुखनगर				
ग्राम का नाम : मुबारिकपुर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	34//21/2 min	चाही	निजी	0.0253
2	34//26 min	चाही	निजी	0.0051
3	35//2 min	चाही	निजी	0.0101
जोड़				0.0405
कुल जोड़				9.3786

[फा. सं. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[Northern Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2023

S.O. 3903(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) amended through Railways (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land to be acquired, with or without structure, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation in connection with the Special Railway Project, namely, “Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New Broad Gauge Double Rail Line on the stretch of land from K.M. 50.350 to K.M. 63.350 in the District of Gurugram in the state of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Competent Authority (LA), Pataudi in writing and shall set out the grounds thereof & the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections & after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE				
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, "Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda" New Broad Gauge Double Rail line on the stretch of land from K.M. 50.350 to K.M. 63.350 in the district Gurugram in the State of Haryana.				
Name of District: Gurugram				
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Farrukhnagar				
Name of Village: Patli Hajipur				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	58//5 min	Banjar Kadeem	Private	0.0354
2	58//6 min	Banjar Kadeem	Private	0.0304
3	58//15 min	Chahi	Private	0.0253
4	59//4 min	Chahi	Private	0.0632
5	59//5 min	Chahi	Private	0.0152
6	59//6 min	Chahi	Private	0.0911
7	59//15 min	Chahi	Private	0.0809
8	59//16 min	Chahi	Private	0.0455
9	59//25 min	Banjar Kadeem	Private	0.0253
10	60//24 min	Banjar Kadeem	Private	0.1112
11	93//20 min	Banjar Kadeem	Private	0.0025
12	93//21 min	Banjar Kadeem	Private	0.0455
13	93//22 min	Banjar Kadeem	Private	0.0430
14	93//23 min	Banjar Kadeem	Private	0.0506

15	94//2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0405
16	94//3 min	Banjar Kadeem	Private	0.0379
17	94//4 min	Banjar Kadeem	Private	0.0076
18	94//6 min	Banjar Kadeem	Private	0.0152
19	94//7 min	Banjar Kadeem	Private	0.0455
20	94//8 min	Banjar Kadeem	Private	0.0278
21	94//11 min	Chahi	Private	0.0051
22	94//14 min	Chahi	Private	0.0177
23	94//15 min	Chahi	Private	0.0455
24	94//16 min	Chahi	Private	0.0101
25	94//20 min	Chahi	Private	0.0329
26	94//21 min	Chahi	Private	0.0405
27	95//1/1 min	Chahi	Private	0.0126
28	95//1/2 min	Chahi	Private	0.0126
29	95//10 min	Chahi	Private	0.0304
30	95//11 min	Chahi	Private	0.0304
31	95//19 min	Chahi	Private	0.0278
32	95//20 min	Chahi	Private	0.0126
33	95//22 min	Chahi	Private	0.0304
34	96//3 min	Chahi	Private	0.0506
35	96//4 min	Chahi	Private	0.0304
36	96//6 min	Chahi	Private	0.0101
37	96//7 min	Chahi	Private	0.0607
38	96//8 min	Chahi	Private	0.0025
39	96//14 min	Chahi	Private	0.0304
40	96//15 min	Chahi	Private	0.0379
41	96//16 min	Chahi	Private	0.0556
42	96//25 min	Chahi	Private	0.0202
43	97//11 min	Chahi	Private	0.0253
44	97//19 min	Chahi	Private	0.0304
45	97//20 min	Chahi	Private	0.0632
46	97//21 min	Chahi	Private	0.0025
47	97//22 min	Chahi	Private	0.0556
48	97//23 min	Chahi	Private	0.0405
49	99//21 min	Chahi	Private	0.0253
50	112//1/1 min	Chahi	Private	0.0025
51	112//1/2 min	Chahi	Private	0.0304
52	112//10 min	Chahi	Private	0.0253
53	112//11 min	Chahi	Private	0.0202
54	112//20 min	Chahi	Private	0.0202
55	112//21 min	Chahi	Private	0.0152
56	114//5 min	Chahi	Private	0.0455
57	114//6 min	Chahi	Private	0.0379
58	114//7 min	Chahi	Private	0.0202
59	114//14 min	Chahi	Private	0.0481

60	114//15 min	Chahi	Private	0.0051
61	114//17 min	Chahi	Private	0.0101
62	114//18/1 min	Chahi	Private	0.0177
63	114//18/2 min	Chahi	Private	0.0228
64	114//22 min	Chahi	Private	0.0025
65	115//5/1 min	Chahi	Private	0.0152
66	115//5/2 min	Chahi	Private	0.0025
67	115//6 min	Chahi	Private	0.0202
68	115//15 min	Chahi	Private	0.0152
69	115//16 min	Chahi	Private	0.0152
70	115//25 min	Chahi	Private	0.0253
71	116//2 min	Chahi	Private	0.0304
72	116//9 min	Chahi	Private	0.0304
73	116//12/1/2 min	Chahi	Private	0.0152
74	116//12/2 min	Chahi	Private	0.0152
75	116//18min	Chahi	Private	0.0076
76	116//19/1 /1min	Chahi	Private	0.0228
77	116//23/1 min	Chahi	Private	0.0228
78	116//23/2 min	Chahi	Private	0.0025
79	117//3 min	Chahi	Private	0.0304
80	117//8 min	Chahi	Private	0.0304
81	117//13 min	Chahi	Private	0.0304
82	117//18 min	Chahi	Private	0.0304
83	117//23/1 min	Chahi	Private	0.0304
84	118//3 min	Chahi	Private	0.0304
85	118//8 min	Chahi	Private	0.0304
86	118//14/2 min	Chahi	Private	0.0531
87	118//15/2 min	Chahi	Private	0.1163
88	118//17/1 min	Chahi	Private	0.0582
89	121//7/1 min	Chahi	Private	0.0126
90	121//8/1 min	Chahi	Private	0.0329
91	121//9/1 min	Chahi	Private	0.0329
92	121//10/1 min	Chahi	Private	0.0278
93	121//11/2 min	Chahi	Private	0.0379
94	121//12/2 min	Chahi	Private	0.0329
95	121//13/2 min	Chahi	Private	0.0481
96	121//14/1/1 min	Chahi	Private	0.0278
97	121//14/1/3 min	Chahi	Private	0.0202
98	121//14/2/1 min	Chahi	Private	0.0076
99	121//15/1/2 min	Chahi	Private	0.0228
100	121//15/2/2 min	Chahi	Private	0.0025
101	121//16/1 min	Chahi	Private	0.0228
102	121//16/3 min	Chahi	Private	0.0253
103	121//17/2 min	Chahi	Private	0.0076
104	121//25/1 min	Chahi	Private	0.0202

105	122//21/1 min	Chahi	Private	0.0379
106	122//21/3 min	Chahi	Private	0.0152
107	122//22 min	Chahi	Private	0.0025
108	123//1/1 min	Chahi	Private	0.0304
109	123//2/2 min	Chahi	Private	0.0354
110	123//9/1 min	Chahi	Private	0.0304
111	123//9/3 min	Chahi	Private	0.0126
112	123//10/2 min	Chahi	Private	0.0177
113	123//12/1 min	Chahi	Private	0.0304
114	123//12/3 min	Chahi	Private	0.0304
115	123//19/1 min	Chahi	Private	0.0304
116	123//19/3 min	Chahi	Private	0.0404
117	123//21/2/1 min	Chahi	Private	0.0253
118	123//22/1/1 min	Chahi	Private	0.0076
119	123//22/2/2 min	Chahi	Private	0.0304
120	126//1/1 min	Chahi	Private	0.0759
121	126//2/2 min	Chahi	Private	0.0455
122	126//9/1 min	Chahi	Private	0.0177
123	126//10/1 min	Chahi	Private	0.0228
124	126//10/3 min	Chahi	Private	0.0354
125	126//11/2 min	Chahi	Private	0.0278
126	128//1/1 min	Chahi	Private	0.0202
127	128//2/1 min	Chahi	Private	0.0404
128	128//2/3 min	Chahi	Private	0.0228
129	128//3/2 min	Chahi	Private	0.0253
130	128//9/1 min	Chahi	Private	0.0177
131	128//10/1 min	Chahi	Private	0.0278
132	128//10/3 min	Chahi	Private	0.0228
133	128//11/2 min	Chahi	Private	0.0126
134	129//14/1 min	Chahi	Private	0.0101
135	129//15/1 min	Chahi	Private	0.0631
136	129//15/3 min	Chahi	Private	0.0076
137	129//16/2 min	Chahi	Private	0.0329
138	129//17/1/1 min	Chahi	Private	0.0202
139	129//17/1/3 min	Chahi	Private	0.0404
140	129//17/2/1 min	Chahi	Private	0.0051
141	129//18/2 min	Chahi	Private	0.0101
142	129//22/1 min	Chahi	Private	0.0152
143	129//23/1 min	Chahi	Private	0.0329
144	129//23/3 min	Chahi	Private	0.0152
145	129//24/2 min	Chahi	Private	0.0379
146	131//6/1/1 min	Chahi	Private	0.0025
147	131//6/2/1 min	Chahi	Private	0.0531
148	131//14/1 min	Chahi	Private	0.0253
149	131//15/1/1/1 min	Chahi	Private	0.0531

150	131//15/1/1/3 min	Chahi	Private	0.0278
151	131//15/1/2/2 min	Chahi	Private	0.0025
152	131//15/2/2 min	Chahi	Private	0.0025
153	131//16/2/1 min	Chahi	Private	0.0101
154	131//17/1 min	Chahi	Private	0.0152
155	131//17/3 min	Chahi	Private	0.0683
156	132//23/1/1/2 min	Chahi	Government	0.0658
157	132//23/2 min	Chahi	Government	0.0329
158	156 min	Chahi	Private	0.0101
159	159/1 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0278
160	178 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0076
161	183 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0025
162	186 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0051
163	187 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0152
Sub Total				4.5853

Name of District: Gurugram

Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Farrukhnagar

Name of Village: Khetawas

Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	24//3/2 min	Chahi	Private	0.0481
2	24//8 min	Chai/ Gair Mumkin	Private	0.0481
3	24//13 min	Chahi	Private	0.0253
4	73/3 min	Gair Mumkin	Government	0.0202
Sub Total				0.1416

Name of District: Gurugram

Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Farrukhnagar

Name of Village: Saidpur Mohammadpur

Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	34//25/2 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0076
2	38//4 min	Chahi	Private	0.0177
3	41//4 min	Chahi	Private	0.0455
4	41//5 min	Chahi	Private	0.0177
5	41//7/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
6	41//7/2 min	Chahi	Private	0.0582
7	41//8/2 min	Chahi	Private	0.0051
8	41//13/1 min	Chahi	Private	0.0126
9	41//13/2 min	Chahi	Private	0.0202
10	41//14 min	Chahi	Private	0.0304
11	41//17/1min	Chahi	Private	0.0304

12	41//18/ min	Chahi	Private	0.0304
13	41//23 min	Chahi	Private	0.0708
14	41//24 min	Chahi	Private	0.0354
15	42//5 min	Chahi	Private	0.0152
16	42//6 min	Chahi	Private	0.0304
17	42//15 min	Chahi	Private	0.0304
18	42//16/1 min	Chahi	Private	0.0455
19	42//17 min	Chahi	Private	0.0126
20	42//24/1 min	Chahi	Private	0.0152
21	42//24/2 min	Chahi	Private	0.0152
22	42//25/2/1 min	Chahi	Private	0.0304
23	43//1 min	Chahi	Private	0.0405
24	43//10/1 min	Chahi	Private	0.0278
25	43//11 min	Chahi	Private	0.0126
26	44//2/2 min	Chahi	Private	0.0304
27	44//3/1 min	Chahi	Private	0.0101
28	44//8/2 min	Chahi	Private	0.0076
29	44//9/1 min	Chahi	Private	0.0304
30	44//9/2 min	Chahi	Private	0.0304
31	44//11/2 min	Chahi	Private	0.0202
32	44//12 min	Chahi	Private	0.0531
33	44//19 min	Chahi	Private	0.0304
34	44//20/1 min	Chahi	Private	0.0051
35	44//20/2 min	Chahi	Private	0.0278
36	44//21/1 min	Chahi	Private	0.0278
37	44//21/2 min	Chahi	Private	0.0152
38	44//22 min	Chahi	Private	0.0101
39	45//2 min	Chahi	Private	0.0152
40	45//12 min	Chahi	Private	0.0253
41	45//19 min	Chahi	Private	0.0152
42	45//22/1 min	Chahi	Private	0.0051
43	46//11/2 min	Chahi	Private	0.0076
44	47//18/1 min	Chahi	Private	0.0025
45	47//18/2 min	Chahi	Private	0.0126
46	47//22/1 min	Chahi	Private	0.0152
47	47//22/3 min	Chahi	Private	0.0025
48	47//23/2/1 min	Chahi	Private	0.0076
49	47//23/2/2 min	Chahi	Private	0.0126
50	15/2/3 min	Chahi	Private	0.0025
Sub Total				1.0828

Name of District: Gurugram				
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Farrukhnagar				
Name of Village: Sultanpur				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7//11 min	Chahi	Private	0.0025
2	7//12/1 min	Chahi	Private	0.0025
3	7//19/1 min	Chahi	Private	0.0051
4	7//19/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0101
5	7//22/2 min	Chahi	Private	0.0051
6	7//22/3/1 min	Chahi	Private	0.0177
7	15//2/2 min	Chahi	Private	0.0051
8	15//3/1/2 min	Chahi	Private	0.0126
9	15//3/2 min	Chahi	Private	0.0126
10	15//8 min	Chahi	Private	0.1872
11	15//13/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0202
12	15//14/1 min	Chahi	Private	0.0025
13	15//17/2 min	Chahi	Private	0.0304
14	15//24/2/1 min	Chahi	Private	0.0126
15	15//24/2/2 min	Chahi	Private	0.0051
16	32//11 min	Chahi	Private	0.0076
17	32//20 min	Chahi	Private	0.0455
18	32//21/1 min	Chahi	Private	0.0506
19	32//21/2 min	Chahi	Private	0.0253
20	33//4/2/1 min	Chahi	Private	0.0051
21	33//5 min	Chahi	Private	0.0177
22	33//6 min	Banjar Kadeem	Private	0.0304
23	33//15/2 min	Chahi	Private	0.0329
24	43//1/2 min	Chahi	Private	0.0430
25	43//2 min	Chahi	Private	0.0228
26	43//9 min	Chahi	Private	0.0708
27	43//12 min	Chahi	Private	0.0708
28	43//19/1 min	Chahi	Private	0.0708
29	43//22/2 min	Chahi	Private	0.0126
30	43//23 min	Chahi	Private	0.0253
31	65//3 min	Chahi	Private	0.0379
32	65//8 min	Chahi	Private	0.0253
33	65//13 min	Chahi	Private	0.0304
34	65//18/1 min	Chahi	Private	0.0354
35	65//23/2 min	Chahi	Private	0.0354
36	65//24 min	Chahi	Private	0.0101
37	76//4/1 min	Chahi	Private	0.0228
38	76//4/2 min	Chahi	Private	0.0202

39	76//7 min	Chahi	Private	0.0506
40	76//14 min	Chahi	Private	0.0506
41	76//17/2 min	Chahi	Private	0.0455
42	76//24 min	Chahi	Private	0.0506
43	99//4 min	Chahi	Private	0.0506
44	99//7 min	Chahi	Private	0.0379
45	99//14 min	Chahi	Private	0.0354
46	99//17/1	Chahi	Private	0.0379
47	99//24/2	Banjar Kadeem	Private	0.0278
48	110//4/2/2 min	Chahi	Private	0.0405
49	110//7/2/1 min	Chahi	Private	0.0405
50	110//15/ min	Chahi	Private	0.0152
51	110//16 min	Chahi	Private	0.0405
52	110//25 min	Chahi	Private	0.0607
53	130//11/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0202
54	130//11/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0152
55	130//20/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
56	130//22/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0076
57	130//23/1 min	Chahi	Private	0.0152
58	130//23/2 min	Chahi	Private	0.0025
59	130//24/2 min	Chahi	Private	0.0051
60	131//5 min	Chahi	Private	0.0556
61	131//6 min	Gair Mumkin	Private	0.0556
62	131//15/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0051
63	131//16 min	Chahi	Private	0.0101
64	143//6 min	Gair Mumkin	Private	0.0582
65	143//15/2/2 min	Chahi	Private	0.0708
66	143//16/1 min	Chahi	Private	0.0379
67	146//18 min	Chahi	Private	0.0253
68	146//23 min	Chahi	Private	0.0304
69	160//3 min	Chahi	Private	0.0076
70	160//4 min	Chahi	Private	0.0278
71	160//7 min	Chahi	Private	0.0076
72	160//14 min	Chahi	Private	0.0354
73	160//17 min	Chahi	Private	0.0354
74	160//18 min	Chahi	Private	0.0152
75	160//23/1 min	Chahi	Private	0.0152
76	160//23/2 min	Chahi	Private	0.0177
77	160//24 min	Chahi	Private	0.0177
78	160//26 min	Chahi	Private	0.0051
79	160//29 min	Chahi	Private	0.0076
80	162//20/1 min	Chahi	Private	0.0152
81	162//21/2 min	Chahi	Private	0.0278
82	177//1/2 min	Chahi	Private	0.0025
83	177//2 min	Chahi	Private	0.0177

84	177//9 min	Chahi	Private	0.0278
85	177//12/2 min	Chahi	Private	0.0278
86	177//19/1 min	Chahi	Private	0.0126
87	177//19/2/1 min	Chahi	Private	0.0126
88	177//22/2/2 min	Chahi	Private	0.0329
89	177//23 min	Chahi	Private	0.0051
90	179//3 min	Chahi	Private	0.0455
91	179//4 min	Chahi	Private	0.0177
92	179//7/2 min	Chahi	Private	0.0025
93	179//8 min	Chahi	Private	0.0228
94	179//13/1 min	Chahi	Private	0.0202
95	179//13/2 min	Chahi	Private	0.0177
96	179//18 min	Chahi	Private	0.0228
97	179//19 min	Chahi	Private	0.0253
98	179//22 min	Chahi	Private	0.0304
99	179//23 min	Chahi	Private	0.0304
100	189//2 min	Chahi	Private	0.0304
101	189//3 min	Chahi	Private	0.0253
102	189//9/1 min	Chahi	Private	0.0379
103	189//9/2 min	Chahi	Private	0.0278
104	189//12 min	Chahi	Private	0.0835
105	189//19/1 min	Chahi	Private	0.0126
106	189//19/3 min	Chahi	Private	0.0304
107	189//20 min	Chahi	Private	0.0329
108	189//21 min	Chahi	Private	0.0304
109	189//22/1 min	Chahi	Private	0.0304
110	191//3/1 min	Chahi	Private	0.0076
111	191//3/2 min	Chahi	Private	0.0202
112	191//8/2 min	Chahi	Private	0.0304
113	191//13/1 min	Chahi	Private	0.0076
114	191//13/2 min	Chahi	Private	0.0228
115	191//18/1 min	Chahi	Private	0.0354
116	191//231/1/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0101
117	191//23/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0076
118	191//23/2/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0126
119	191//24/3 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
120	205//4/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0025
121	205//4/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0278
122	205//7 min	Gair Mumkin	Private	0.0228
123	206//15 min	Chahi	Private	0.0025
124	207//1/1 min	Chahi	Private	0.0025
125	207//1/2 min	Chahi	Private	0.0405
126	207//2 min	Chahi	Private	0.0228
127	207//10 min	Chahi	Private	0.0632
128	207//11 min	Chahi	Private	0.0304

129	217/1 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
130	218 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0076
131	222/1 min	Gair Mumkin Line Permit	Government	0.0177
132	230 min	Gair Mumkin Line Permit	Government	0.0152
133	232/1/1 min	Gair Mumkin Line Permit	Government	0.0051
134	357/2 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
135	366/2 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025
136	423 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025
137	431 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
138	432 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025
139	448/1 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
140	451 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
141	492 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025
142	511 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0101
143	512/1 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025
144	513 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025
145	519 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0025
146	521 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
147	523 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0202
Sub Total				3.5284
Name of District: Gurugram				
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Farrukhnagar				
Name of Village: Mubarikpur				
Serial No.	Survey Number Rect. No. / Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	34//21/2 min	Chahi	Private	0.0253
2	34//26 min	Chahi	Private	0.0051
3	35//2 min	Chahi	Private	0.0101
Sub Total				0.0405
Grand Total				9.3786

[F. No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (c)